



**Series A6BAB/C**

**Set No. 2**



प्रश्न-पत्र कोड  
Q.P. Code

**67/6/2**

अनुक्रमांक

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **19** हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में **12** प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
- Please check that this question paper contains **19** printed pages.
- Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains **12** questions.
- Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



# लेखाशास्त्र ACCOUNTANCY



निर्धारित समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 40

Time allowed : 2 hours

Maximum Marks : 40



### सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में दो भाग हैं – **भाग क** और **भाग ख** । इस प्रश्न-पत्र में **12** प्रश्न हैं । **सभी** प्रश्न अनिवार्य हैं ।
- (ii) **भाग क** सभी परीक्षार्थियों के लिए **अनिवार्य** है ।
- (iii) **भाग ख** में दो विकल्प हैं अर्थात् (1) वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और (2) कम्प्यूटरीकृत लेखांकन । छात्रों को दिए गए विकल्पों में से केवल **एक** ही विकल्प के प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।
- (iv) प्रश्न संख्या **1** से **3** और **10** लघु-उत्तरीय प्रकार-I के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के **2** अंक हैं ।
- (v) प्रश्न संख्या **4** से **6** और **11** लघु-उत्तरीय प्रकार-II के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के **3** अंक हैं ।
- (vi) प्रश्न संख्या **7** से **9** और **12** दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के **5** अंक हैं ।
- (vii) कोई समग्र विकल्प नहीं है । हालाँकि, **तीन** अंकों वाले **3** प्रश्नों में और **पाँच** अंकों वाले **1** प्रश्न में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है ।

### भाग क

(अलाभकारी संगठनों, साझेदारी फर्मों तथा कम्पनियों के लिए लेखांकन)

1. 'प्राप्ति एवं भुगतान खाते' की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए । 2
2. पी, क्यू, आर तथा एस एक फर्म के साझेदार थे तथा 4 : 3 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे । 31 मार्च, 2022 को पी फर्म से सेवानिवृत्त हुआ । पी का भाग क्यू, आर तथा एस ने 1 : 2 : 3 के अनुपात में ले लिया । क्यू, आर तथा एस के नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए । 2
3. गीता, सीता तथा मीता एक फर्म की साझेदार थीं तथा 2 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटती थीं । 31 मार्च, 2022 को मीता फर्म से सेवानिवृत्त हुई । मीता की सेवानिवृत्ति पर फर्म की ख्याति की गणना पिछले पाँच वर्षों के औसत लाभ के तीन वर्षों के क्रय के आधार पर की जाएगी । पिछले पाँच वर्षों के लाभ थे :

वर्ष	लाभ (₹)
2017 – 2018	70,000
2018 – 2019	80,000
2019 – 2020	90,000
2020 – 2021	1,00,000
2021 – 2022	1,10,000

ख्याति में मीता के भाग की गणना कीजिए तथा ख्याति खाता खोले बिना इसके लेखांकन की आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टि कीजिए ।

2



### General Instructions :

Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

- (i) This question paper comprises of **two** parts – **Part A** and **Part B**. There are **12** questions in the question paper. **All** questions are compulsory.
- (ii) **Part A** is **compulsory** for all candidates.
- (iii) **Part B** has two options i.e. (1) Analysis of Financial Statements and (2) Computerised Accounting. Students must attempt only **one** of the given options.
- (iv) Questions no. **1** to **3** and **10** are Short Answer Type–I Questions carrying **2** marks each.
- (v) Questions no. **4** to **6** and **11** are Short Answer Type–II Questions carrying **3** marks each.
- (vi) Questions no. **7** to **9** and **12** are Long Answer Type Questions carrying **5** marks each.
- (vii) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in **3** questions of **three** marks and **1** question of **five** marks.

### PART A

(Accounting for Not-for-Profit Organisations, Partnership Firms and Companies)

1. State any two features of 'Receipts and Payments Account'. 2
2. P, Q, R and S were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4 : 3 : 2 : 1. On 31<sup>st</sup> March, 2022, P retired from the firm. P's share was taken over by Q, R and S in the ratio of 1 : 2 : 3. Calculate the new profit sharing ratio of Q, R and S. 2
3. Geeta, Seeta and Meeta were partners a firm sharing profits and losses in the ratio of 2 : 2 : 1. On 31<sup>st</sup> March, 2022, Meeta retired from the firm. On Meeta's retirement the goodwill of the firm was valued at 3 years' purchase of average profits of the last 5 years. The profits of the last 5 years were :

Year	Profit (₹)
2017 – 2018	70,000
2018 – 2019	80,000
2019 – 2020	90,000
2020 – 2021	1,00,000
2021 – 2022	1,10,000

Calculate Meeta's share of goodwill and pass necessary journal entry for the same without opening goodwill account. 2



4. (क) 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आशा हैल्थ क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता ₹ 70,000 प्राप्त चन्दा दर्शा रहा था। अतिरिक्त सूचना निम्न प्रकार से थी :

(i) 31 मार्च, 2022 को प्राप्त अग्रिम चन्दा ₹ 7,000 था।

(ii) 31 मार्च, 2021 को प्राप्त अग्रिम चन्दा ₹ 4,000 था।

(iii) 31 मार्च, 2022 को अदत्त चन्दा ₹ 8,000 था।

(iv) 31 मार्च, 2021 को अदत्त चन्दा ₹ 3,000 था।

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खाते के जमा पक्ष में खतौनी की जाने वाली चन्दे की राशि की गणना कीजिए।

3

#### अथवा

(ख) जैम क्लब की रोकड़ बही से लिए गए निम्नलिखित विवरणों से 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार कीजिए :

3

आरम्भिक शेष :	राशि ₹
हस्तस्थ रोकड़	15,000
बैंक में रोकड़	12,000
चन्दा	1,02,000
निवेशों का क्रय	15,000
अदत्त किराया	6,000
प्राप्त प्रवेश शुल्क (₹ 10,000 पिछले वर्ष के सम्मिलित)	36,000
अंतिम शेष :	
हस्तस्थ रोकड़	15,000



4. (a) Receipts and Payments Account of Asha Health Club showed ₹ 70,000 as subscriptions received for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2022. The additional information was as under :

- (i) Subscriptions received in advance as on 31<sup>st</sup> March, 2022 were ₹ 7,000.
- (ii) Subscriptions received in advance as on 31<sup>st</sup> March, 2021 were ₹ 4,000.
- (iii) Outstanding subscriptions as on 31<sup>st</sup> March, 2022 were ₹ 8,000.
- (iv) Outstanding subscriptions as on 31<sup>st</sup> March, 2021 were ₹ 3,000.

Calculate the amount of subscriptions to be credited to the Income and Expenditure Account for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2022. 3

**OR**

(b) From the following particulars taken out from the Cash Book of Gem Club, prepare a Receipts and Payments Account for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2022 : 3

Opening Balance :	Amount ₹
Cash in Hand	15,000
Cash at Bank	12,000
Subscriptions	1,02,000
Investments Purchased	15,000
Rent Outstanding	6,000
Entrance Fees Collected (including ₹ 10,000 for the previous year)	36,000
Closing Balance :	
Cash in Hand	15,000



5. एल, एम तथा आर एक फर्म के साझेदार थे तथा 2 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे । फर्म अपनी पुस्तकें प्रति वर्ष 31 मार्च को बन्द करती है । 31 अगस्त, 2021 को एल की मृत्यु हो गई । साझेदारी संलेख में प्रावधान था कि किसी साझेदार की मृत्यु पर, मृत्यु के वर्ष में फर्म के लाभ में उसके भाग की गणना पिछले दो वर्षों के औसत लाभों के आधार पर की जाएगी । 31 मार्च, 2020 तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्षों का लाभ क्रमशः ₹ 5,00,000 तथा ₹ 7,00,000 था ।

मृत्यु की तिथि तक एल के लाभ के भाग की गणना कीजिए तथा फर्म की पुस्तकों में इसी तिथि को आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टि कीजिए ।

3

6. (क) बी एक्स लिमिटेड ने पी क्यू एण्ड कम्पनी से ₹ 3,00,000 मूल्य का भवन, ₹ 2,00,000 मूल्य की मशीनरी, ₹ 30,000 मूल्य का फर्नीचर तथा इसकी ₹ 40,000 की देयताओं को ₹ 6,00,000 के क्रय मूल्य पर ले लिया । बी एक्स लिमिटेड ने क्रय मूल्य का भुगतान ₹ 100 प्रत्येक के 11% ऋणपत्रों को 20% अधिमूल्य पर निर्गमित करके किया ।

उपर्युक्त लेनदेनों के लिए बी एक्स लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए ।

3

### अथवा

- (ख) एक्स ज़ैड लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 5000, 9% ऋणपत्रों को निर्गमित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए । राशि का भुगतान निम्न प्रकार से देय था :

आवेदन पर — ₹ 40 प्रति ऋणपत्र

आबंटन पर — शेष

10,000 ऋणपत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुए । 2000 ऋणपत्रों के आवेदनों को रद्द कर दिया गया तथा इन आवेदकों को उनकी आवेदन राशि वापस कर दी गई । शेष आवेदकों को आनुपातिक आधार पर निर्गमन कर दिया गया । उन आवेदन पत्रों के साथ प्राप्त अतिरिक्त आवेदन राशि जिन्हें आनुपातिक आधार पर आबंटित किया गया था, का समायोजन आबंटन पर देय राशि में कर लिया गया ।

एक्स ज़ैड लिमिटेड की पुस्तकों में ऋणपत्रों के निर्गमन की आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए ।

3



5. L, M and R were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2 : 2 : 1. The firm closes its books on 31<sup>st</sup> March every year. On 31<sup>st</sup> August, 2021, L died. The partnership deed provided that a deceased partner's share in the profits of the firm in the year of his death will be calculated on the basis of average profits of the previous two years. The profits for the years ended 31<sup>st</sup> March, 2020 and 31<sup>st</sup> March, 2021 were ₹ 5,00,000 and ₹ 7,00,000 respectively.

Calculate L's share of profit till the date of his death and pass necessary journal entry on the same date in the books of the firm.

3

6. (a) BX Ltd. took over a building worth ₹ 3,00,000, machinery worth ₹ 2,00,000, furniture worth ₹ 30,000 and its liabilities of ₹ 40,000 from PQ & Company for a purchase consideration of ₹ 6,00,000. BX Ltd. paid the purchase consideration by issuing 11% debentures of ₹ 100 each at a premium of 20%.

Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of BX Ltd.

3

**OR**

- (b) XZ Ltd. invited applications for issuing 5000, 9% debentures of ₹ 100 each. The amount was payable as follows :

On application — ₹ 40 per debenture

On allotment — Balance

Applications for 10,000 debentures were received. Applications for 2000 debentures were rejected and the application money of these applicants was refunded to them. Pro-rata allotment was made to the remaining applicants. Excess application money received with those applications against which pro-rata allotment was made was adjusted towards amount due on allotment.

Pass the necessary journal entries for the issue of debentures in the books of XZ Ltd.

3



7. लक्ष्मी क्लब के निम्नलिखित प्राप्ति एवं भुगतान खाते से, 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता तैयार कीजिए :

**31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लक्ष्मी क्लब का  
प्राप्ति एवं भुगतान खाता**

प्राप्तियाँ	राशि ₹	भुगतान	राशि ₹
शेष नीचे लाए		प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी	65,000
नगद 40,000		बिजली बिल	54,000
बैंक <u>70,000</u>	1,10,000	निगम कर	35,000
चन्दा	5,30,000	बीमा प्रीमियम	10,000
प्रवेश शुल्क	46,000	फर्नीचर	2,00,000
आजीवन सदस्यता शुल्क	40,000	स्थायी जमा	3,00,000
स्थायी जमा पर ब्याज	13,500	शेष नीचे ले गए	
दान	1,20,000	नगद 1,03,500	
लॉकर किराया	28,000	बैंक <u>1,20,000</u>	2,23,500
	8,87,500		8,87,500

अतिरिक्त सूचना :

क्लब के 500 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य ₹ 1,000 वार्षिक चन्दे का भुगतान करता है ।

5





7. From the following Receipts and Payments Account of Laxmi Club, prepare Income and Expenditure Account for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2022 :

**Receipts and Payments Account of Laxmi Club  
for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2022**

Receipts	Amount ₹	Payments	Amount ₹
To Balance b/d		By Printing and Stationery	65,000
Cash           40,000		By Electricity Bill	54,000
Bank <u>70,000</u>	1,10,000	By Municipal Tax	35,000
To Subscriptions	5,30,000	By Insurance Premium	10,000
To Entrance Fee	46,000	By Furniture	2,00,000
To Life Membership Fee	40,000	By Fixed Deposits	3,00,000
To Interest on Fixed Deposit	13,500	By Balance c/d	
To Donations	1,20,000	Cash           1,03,500	
To Locker Rent	28,000	Bank <u>1,20,000</u>	2,23,500
	<u>8,87,500</u>		<u>8,87,500</u>

*Additional Information :*

The club has 500 members, each paying an annual subscription of ₹ 1,000.



8. (क) रवि, मोहन तथा पाण्डे एक फर्म के साझेदार थे तथा 7 : 8 : 9 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे । 31 मार्च, 2022 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था :

**31 मार्च, 2022 को रवि, मोहन तथा पाण्डे का स्थिति विवरण**

देयताएँ	राशि ₹	परिसम्पत्तियाँ	राशि ₹
लेनदार	1,41,000	बैंक	27,000
		स्टॉक	91,000
सामान्य संचय	24,000	देनदार 2,10,000	
पूँजी :		घटा : संदिग्ध ऋणों	
रवि 3,00,000		के लिए प्रावधान 10,000	2,00,000
मोहन 4,00,000		मशीनरी	3,00,000
पाण्डे 8,43,000	15,43,000	भूमि तथा भवन	10,00,000
		लाभ-हानि खाता (वर्ष 2021 – 22 की हानि)	90,000
	17,08,000		17,08,000

31 मार्च, 2022 को मोहन निम्नलिखित शर्तों पर फर्म से सेवानिवृत्त हुआ :

- फर्म की ख्याति का मूल्यांकन ₹ 4,80,000 पर किया गया ।
- ख्याति में मोहन के भाग की खतौनी उसके पूँजी खाते के जमा पक्ष में ख्याति खाता खोले बिना की जाएगी ।
- ₹ 10,000 के देनदारों को अपलिखित किया जाएगा तथा देनदारों पर डूबत तथा संदिग्ध ऋणों के लिए 10% का प्रावधान किया जाएगा ।
- मशीनरी पर 10% मूल्यहास लगाया जाएगा तथा भूमि एवं भवन को 5% से बढ़ाया जाएगा ।
- मोहन के पूँजी खाते का शेष उसके ऋण खाते में हस्तान्तरित किया जाएगा ।

मोहन की सेवानिवृत्ति पर फर्म की पुस्तकों में पुनर्मूल्यांकन खाता तथा मोहन का पूँजी खाता तैयार कीजिए ।



8. (a) Ravi, Mohan and Pandey were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 7 : 8 : 9. On 31<sup>st</sup> March, 2022, their Balance Sheet was as follows :

**Balance Sheet of Ravi, Mohan and Pandey as at 31<sup>st</sup> March, 2022**

Liabilities	Amount ₹	Assets	Amount ₹
Creditors	1,41,000	Bank	27,000
		Stock	91,000
		Debtors	2,10,000
General Reserve	24,000	Less : Provision for	
Capitals :		doubtful debts	<u>10,000</u>
Ravi	3,00,000	Machinery	3,00,000
Mohan	4,00,000	Land and Building	10,00,000
Pandey	<u>8,43,000</u>	Profit and Loss Account	90,000
	15,43,000	(Loss of 2021 – 22)	
	<u>17,08,000</u>		<u>17,08,000</u>

On 31<sup>st</sup> March, 2022, Mohan retired from the firm on the following terms :

- Goodwill of the firm was valued at ₹ 4,80,000.
- Mohan's share of goodwill will be credited to his capital account without opening goodwill account.
- Debtors of ₹ 10,000 will be written off and a provision of 10% for bad and doubtful debts will be created on debtors.
- Machinery will be depreciated by 10% and land and building will be appreciated by 5%.
- The balance in Mohan's Capital Account will be transferred to his loan account.

Prepare Revaluation Account and Mohan's Capital Account on Mohan's retirement, in the books of the firm.

5

**OR**



(ख) बी, सी तथा डी एक फर्म के साझेदार थे तथा 2 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे । 31 मार्च, 2022 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था :

**31 मार्च, 2022 को बी, सी तथा डी का स्थिति विवरण**

देयताएँ	राशि ₹	परिसम्पत्तियाँ	राशि ₹
विविध लेनदार	1,20,000	बैंक	17,000
लाभ-हानि खाता	2,000	देनदार	2,00,000
पूँजी :		घटा : डूबत ऋणों	
बी 13,00,000		के लिए प्रावधान	5,000
सी 2,00,000		स्टॉक	1,95,000
डी 2,00,000	17,00,000	फर्नीचर	4,50,000
		भूमि तथा भवन	60,000
	18,22,000		11,00,000
			18,22,000

उपर्युक्त तिथि को फर्म का विघटन हो गया । परिसम्पत्तियों से वसूली तथा देयताओं का भुगतान निम्न प्रकार से किया गया :

- देनदारों को पुस्तक मूल्य से 10% कम पर एक ऋण एकत्रित करने वाली एजेंसी को बेच दिया गया ।
- ₹ 2,00,000 का स्टॉक बी ने पुस्तक मूल्य से ₹ 90,000 कम पर ले लिया तथा शेष स्टॉक से ₹ 1,80,000 की वसूली हुई ।
- फर्नीचर को सी ने ₹ 65,000 पर ले लिया ।
- लेनदारों को उनकी राशि के पूर्ण निपटान के रूप में 10% कम भुगतान किया गया ।
- भूमि एवं भवन से ₹ 18,00,000 की वसूली हुई ।
- बी को विघटन कार्य करने का दायित्व दिया गया जिसके लिए उसे ₹ 40,000 का भुगतान करना था ।

वसूली खाता तैयार कीजिए ।



- (b) B, C and D were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2 : 2 : 1. On 31<sup>st</sup> March, 2022 their Balance Sheet was as follows :

**Balance Sheet of B, C and D as at 31<sup>st</sup> March, 2022**

Liabilities	Amount ₹	Assets	Amount ₹
Sundry Creditors	1,20,000	Bank	17,000
Profit and Loss A/c	2,000	Debtors	2,00,000
Capitals :		Less : Provision for bad debts	<u>5,000</u>
B      13,00,000		Stock	4,50,000
C      2,00,000		Furniture	60,000
D <u>2,00,000</u>	17,00,000	Land and Building	11,00,000
	18,22,000		18,22,000

On the above date the firm was dissolved. The Assets were realised and the Liabilities were paid off as follows :

- (i) Debtors were sold to a debt collection agency at 10% less than the book value.
- (ii) Stock ₹ 2,00,000 was taken over by B at ₹ 90,000 less than its book value and the remaining stock realised ₹ 1,80,000.
- (iii) Furniture was taken over by C for ₹ 65,000.
- (iv) Creditors were paid 10% less in full settlement of their amount.
- (v) Land and Building realised ₹ 18,00,000.
- (vi) B was assigned the work of dissolution for which he was to be paid ₹ 40,000.

Prepare Realisation Account.

5



9. निम्नलिखित स्थितियों में 9% ऋणपत्रों के निर्गमन के लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए :

5

- (क) ₹ 100 प्रत्येक के ₹ 5,00,000, 9% ऋणपत्रों का निर्गमन सममूल्य पर किया गया जिनका शोधन तीन वर्ष पश्चात् सममूल्य पर करना है ।
- (ख) ₹ 100 प्रत्येक के 4,000, 9% ऋणपत्रों का निर्गमन 3% बट्टे पर किया गया जिनका शोधन पाँच वर्ष पश्चात् 10% प्रीमियम पर करना है ।
- (ग) ₹ 100 प्रत्येक के 10,000, 9% ऋणपत्रों का निर्गमन 20% प्रीमियम पर किया गया जिनका शोधन पाँच वर्ष पश्चात् 10% प्रीमियम पर करना है ।

### भाग ख

#### विकल्प 1

#### (वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

10. 'रोकड़ प्रवाह विवरण' तैयार करने के प्राथमिक उद्देश्य का उल्लेख कीजिए ।

2

11. (क) कल्याण लिमिटेड के निम्नलिखित लाभ-हानि विवरण से 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलनात्मक लाभ-हानि विवरण तैयार कीजिए :

3

विवरण	नोट सं.	2021 – 22 ₹	2020 – 21 ₹
प्रचालन आगम		52,00,000	40,00,000
कर्मचारी हितलाभ व्यय		12,00,000	8,00,000
अन्य व्यय		24,00,000	20,00,000
कर दर 50%			

#### अथवा

(ख) निम्नलिखित सूचना से, 31 मार्च, 2021 तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामान्य आकार लाभ-हानि विवरण तैयार कीजिए :

3

विवरण	नोट सं.	2021 – 22 ₹	2020 – 21 ₹
प्रचालन आगम		10,00,000	4,00,000
कर्मचारी हितलाभ व्यय		4,00,000	1,60,000
अन्य व्यय		20,000	20,000
कर दर 50%			



9. Pass the necessary journal entries for the issue of 9% debentures in the following cases : 5
- Issued ₹ 5,00,000, 9% debentures of ₹ 100 each at par, redeemable at par, after three years.
  - Issued 4,000, 9% debentures of ₹ 100 each at a discount of 3%, redeemable at a premium of 10% after five years.
  - Issued 10,000, 9% debentures of ₹ 100 each issued at a premium of 20%, redeemable at a premium of 10% after five years.

### PART B

#### OPTION 1

#### (Analysis of Financial Statements)

10. State the primary objective of preparing 'Cash Flow Statement'. 2
11. (a) From the following Statement of Profit and Loss of Kalyan Ltd. prepare a Comparative Statement of Profit and Loss for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2022 : 3

Particulars	Note No.	2021 – 22 ₹	2020 – 21 ₹
Revenue from Operations		52,00,000	40,00,000
Employee Benefit Expenses		12,00,000	8,00,000
Other Expenses		24,00,000	20,00,000
Tax Rate 50%			

### OR

- (b) From the following information, prepare a Common Size Statement of Profit and Loss for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2021 and 31<sup>st</sup> March, 2022 : 3

Particulars	Note No.	2021 – 22 ₹	2020 – 21 ₹
Revenue from Operations		10,00,000	4,00,000
Employee Benefit Expenses		4,00,000	1,60,000
Other Expenses		20,000	20,000
Tax Rate 50%			



12. 31 मार्च, 2022 को पी पी लिमिटेड के निम्नलिखित स्थिति विवरण से, प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए :

5

**पी पी लिमिटेड**  
**31 मार्च, 2022 को स्थिति विवरण**

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2022 ₹	31 मार्च, 2021 ₹
<b>I – समता एवं देयताएँ :</b>			
1. अंशधारक निधियाँ			
(क) अंश पूँजी	1	70,00,000	50,00,000
(ख) संचय एवं आधिक्य	2	10,00,000	8,00,000
2. अचल देयताएँ			
दीर्घकालीन उधार	3	20,00,000	15,00,000
3. चालू देयताएँ			
(क) व्यापारिक देय		2,00,000	1,00,000
(ख) लघुकालीन प्रावधान	4	50,000	80,000
<b>कुल</b>		<b>1,02,50,000</b>	<b>74,80,000</b>
<b>II – परिसम्पत्तियाँ :</b>			
1. अचल परिसम्पत्तियाँ			
(क) स्थायी परिसम्पत्तियाँ			
(i) मूर्त परिसम्पत्तियाँ	5	65,00,000	40,00,000
(ii) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	6	2,00,000	3,00,000
(ख) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम		10,00,000	15,00,000
2. चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) मालसूची (स्टॉक)		6,00,000	7,00,000
(ख) व्यापारिक प्राप्य		5,00,000	3,00,000
(ग) रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		14,50,000	6,80,000
<b>कुल</b>		<b>1,02,50,000</b>	<b>74,80,000</b>





12. From the following Balance Sheet of PP Ltd. as at 31<sup>st</sup> March, 2022, calculate Cash Flows from Operating Activities :

5

**PP Ltd.**  
**Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March, 2022**

Particulars	Note No.	31 <sup>st</sup> March, 2022 ₹	31 <sup>st</sup> March, 2021 ₹
<b>I – Equity and Liabilities :</b>			
1. Shareholder's Funds			
(a) Share Capital	1	70,00,000	50,00,000
(b) Reserves and Surplus	2	10,00,000	8,00,000
2. Non-Current Liabilities			
Long-term Borrowings	3	20,00,000	15,00,000
3. Current Liabilities			
(a) Trade Payables		2,00,000	1,00,000
(b) Short-term Provisions	4	50,000	80,000
<b>Total</b>		1,02,50,000	74,80,000
<b>II – Assets :</b>			
1. Non-Current Assets			
(a) Fixed Assets			
(i) Tangible Assets	5	65,00,000	40,00,000
(ii) Intangible Assets	6	2,00,000	3,00,000
(b) Long-term Loans and Advances		10,00,000	15,00,000
2. Current Assets			
(a) Inventories		6,00,000	7,00,000
(b) Trade Receivables		5,00,000	3,00,000
(c) Cash and Cash Equivalents		14,50,000	6,80,000
<b>Total</b>		1,02,50,000	74,80,000



**खातों के नोट्स :**

नोट सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 ₹	31 मार्च, 2021 ₹
1	अंश पूँजी समता अंश पूँजी	70,00,000	50,00,000
2	संचय एवं आधिक्य (आधिक्य अर्थात् लाभ-हानि विवरण का शेष)	10,00,000	8,00,000
3	दीर्घकालीन उधार 6% ऋणपत्र	20,00,000	15,00,000
4	लघुकालीन प्रावधान कर प्रावधान	50,000	80,000
5	मूर्त परिसम्पत्तियाँ भूमि तथा भवन	65,00,000	40,00,000
6	अमूर्त परिसम्पत्तियाँ ख्याति	2,00,000	3,00,000

**अतिरिक्त सूचना :**

6% ऋणपत्रों पर ₹ 90,000 ब्याज का भुगतान किया गया ।

**भाग ख**

**विकल्प 2**

**(कम्प्यूटरीकृत लेखांकन)**

10. टैली सॉफ्टवेयर के अनुसार 'खाता समूह' का अर्थ दीजिए । 2
11. (क) वेतन बिल को तैयार करते समय पे-रोल लेखांकन में क्या प्रदान किया जाता है ? किन्हीं दो बिन्दुओं का उल्लेख कीजिए । 3
- अथवा**
- (ख) 'टैली गेटवे' क्या है ? गेटवे के किन्हीं चार घटकों का उल्लेख कीजिए । 3
12. टैली सॉफ्टवेयर में प्रयुक्त किए जाने वाले तीन प्रकार के प्रमाणकों (वाउचर) तथा प्रमाणकों का अंकन करने की दो विधियों को समझाइए । 5



### Notes to Accounts :

Note No.	Particulars	31 <sup>st</sup> March, 2022 ₹	31 <sup>st</sup> March, 2021 ₹
1	Share Capital Equity Share Capital	70,00,000	50,00,000
2	Reserves and Surplus (Surplus i.e., Balance in the Statement of Profit and Loss)	10,00,000	8,00,000
3	Long-term Borrowings 6% Debentures	20,00,000	15,00,000
4	Short-term Provisions Provision for Tax	50,000	80,000
5	Tangible Assets Land and Building	65,00,000	40,00,000
6	Intangible Assets Goodwill	2,00,000	3,00,000

### Additional Information :

₹ 90,000 interest was paid on 6% debentures.

## PART B OPTION 2

### (Computerised Accounting)

10. Give the meaning of 'Group of Account' as per Tally software. 2
11. (a) What is provided under Payroll accounting while preparation of a Salary Bill ? State any two points. 3
- OR**
- (b) What is 'Gateway of Tally' ? State any four components of Gateway. 3
12. Explain three types of vouchers and two methods of voucher numbering used in Tally software. 5